



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 19 नवम्बर, 2020
कार्तिक 28, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/783-2020-4-112(अयोध्या)-2014
लखनऊ, 19 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-321

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0/2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0/2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद अयोध्या की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/351/2015-4-112 (अयोध्या)-2014, दिनांक 13 फरवरी, 2015 में विकास खण्ड-मसोधा एवं पूराबाजार की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

सारिणी

जनपद का नाम-अयोध्या

पूर्व स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम	क्र० सं०	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	मसौधा	खोजनपुर	खोजनपुर	नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं० 2055/नौ-7-19-22(जनरल)/2017टी०सी० लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम अयोध्या में सम्मिलित किया गया है।			
2	मसौधा	पहाड़गंज	पहाड़गंज				
3	मसौधा	गद्दोपुर	गद्दोपुर				
4	मसौधा	अब्बूसराय	अब्बूसराय				
5	मसौधा	मलिकपुर	मलिकपुर काजीपुर जमीन मलिकपुर				
6	मसौधा	गंजा	गंजा				
7	मसौधा	जनौरा	जनौरा				
8	मसौधा	मिर्जापुर माफी	मिर्जापुर माफी				
9	मसौधा	समशुद्दीनपुर	समशुद्दीनपुर				
10	मसौधा	डाभासेमर	डाभासेमर गोपालपुर (डाभासेमर)				
11	मसौधा	चाँदपुर हरिवंश	चाँदपुर हरिवंश				
12	मसौधा	पूरे हुसैन खॉ	पूरे हुसैन खॉ				
13	मसौधा	पलिया शाहबदी	पलिया शाहबदी				
14	मसौधा	उसरू	उसरू				
15	मसौधा	हांसापुर	हांसापुर				
16	मसौधा	मऊयदुवंशपुर	मऊयदुवंशपुर				
17	मसौधा	बनवीरपुर	बनवीरपुर				
18	मसौधा	फिरोजपुर	फिरोजपुर	1	मसौधा	फिरोजपुर	फिरोजपुर
19	मसौधा	शिवदासपुर	शिवदासपुर	2	मसौधा	शिवदासपुर	शिवदासपुर
20	मसौधा	भदोखर	भदोखर	3	मसौधा	भदोखर	भदोखर
21	मसौधा	बिरौली	बिरौली	4	मसौधा	बिरौली	बिरौली
22	मसौधा	टोनिया	टोनिया	5	मसौधा	टोनिया	टोनिया
23	मसौधा	सोफियापारा	सोफियापारा कुरांवा	6	मसौधा	सोफियापारा	सोफियापारा कुरांवा

1	2	3	4	1	2	3	4
24	मसौधा	जगदीशपुर	जगदीशपुर	7	मसौधा	जगदीशपुर	जगदीशपुर
25	मसौधा	गोपालपुर	गोपालपुर	8	मसौधा	गोपालपुर	गोपालपुर
26	मसौधा	बिछिया	बिछिया	9	मसौधा	बिछिया	बिछिया
27	मसौधा	हाजीपुर सिंहपुर	हाजीपुर सिंहपुर	10	मसौधा	हाजीपुर सिंहपुर	हाजीपुर सिंहपुर
28	मसौधा	कोटसराय	कोटसराय	11	मसौधा	कोटसराय	कोटसराय
			मांझाकला				मांझाकला
29	मसौधा	मुमताजनगर	मुमताजनगर	12	मसौधा	मुमताजनगर	मुमताजनगर
30	मसौधा	रायपुर	रायपुर	13	मसौधा	रायपुर	रायपुर
31	मसौधा	मानापुर	मानापुर	14	मसौधा	मानापुर	मानापुर
			खरगपुर				खरगपुर
32	मसौधा	घाटमपुर	घाटमपुर	15	मसौधा	घाटमपुर	घाटमपुर
33	मसौधा	भीखनपुर	भीखनपुर	16	मसौधा	भीखनपुर	भीखनपुर
34	मसौधा	जलालाबाद	जलालाबाद	17	मसौधा	जलालाबाद	जलालाबाद
35	मसौधा	फतेहपुर सरैया	फतेहपुर सरैया	18	मसौधा	फतेहपुर सरैया	फतेहपुर सरैया
			फतेहपुर सरैया मांझा				फतेहपुर सरैया मांझा
36	मसौधा	फिरोजपुर उपरहार	फिरोजपुर उपरहार	19	मसौधा	फिरोजपुर उपरहार	फिरोजपुर उपरहार
			फिरोजपुर उप0 मांझा				फिरोजपुर उप0 मांझा
37	मसौधा	हूँसेपुर	हूँसेपुर	20	मसौधा	हूँसेपुर	हूँसेपुर
38	मसौधा	सलारपुर	सलारपुर	21	मसौधा	सलारपुर	सलारपुर
39	मसौधा	सरियावां	सरियावां	22	मसौधा	सरियावां	सरियावां
40	मसौधा	ताजपुर कोडरा	ताजपुर कोडरा	23	मसौधा	ताजपुर कोडरा	ताजपुर कोडरा
41	मसौधा	वल्लीपुर	वल्लीपुर	24	मसौधा	वल्लीपुर	वल्लीपुर
42	मसौधा	सिड़हिर	सिड़हिर	25	मसौधा	सिड़हिर	सिड़हिर
43	मसौधा	भाईपुर	भाईपुर	26	मसौधा	भाईपुर	भाईपुर
44	मसौधा	मोहिउद्दीनपुर	मोहिउद्दीनपुर	27	मसौधा	मोहिउद्दीनपुर	मोहिउद्दीनपुर
45	मसौधा	गौहनियां	गौहनियां	28	मसौधा	गौहनियां	गौहनियां
46	मसौधा	दौलतपुर	दौलतपुर	29	मसौधा	दौलतपुर	दौलतपुर
			मोकलपुर				मोकलपुर
47	मसौधा	कादीपुर	कादीपुर	30	मसौधा	कादीपुर	कादीपुर
			बन्दीदासपुर				बन्दीदासपुर

1	2	3	4	1	2	3	4
48	मसौधा	अमौना	अमौना	31	मसौधा	अमौना	अमौना
49	मसौधा	उसरू अमौना	उसरू अमौना	32	मसौधा	उसरू अमौना	उसरू अमौना
50	मसौधा	चाँदपुर कैल	चाँदपुर कैल	33	मसौधा	चाँदपुर कैल	चाँदपुर कैल
51	मसौधा	छतिरवा	छतिरवा	34	मसौधा	छतिरवा	छतिरवा
52	मसौधा	पोरा	पोरा	35	मसौधा	पोरा	पोरा
53	मसौधा	दसौली	दसौली	36	मसौधा	दसौली	दसौली
54	मसौधा	कैल	कैल	37	मसौधा	कैल	कैल
55	मसौधा	पाराकैल	पाराकैल	38	मसौधा	पाराकैल	पाराकैल
56	मसौधा	पिपरी	पिपरी	39	मसौधा	पिपरी	पिपरी
57	मसौधा	भदरसा बाहर	भदरसा बाहर	40	मसौधा	भदरसा बाहर	भदरसा बाहर
58	मसौधा	सरैया	सरैया	41	मसौधा	सरैया	सरैया
59	मसौधा	राजापुर माफी	राजापुर माफी	42	मसौधा	राजापुर माफी	राजापुर माफी
60	मसौधा	विनायकपुर	विनायकपुर	43	मसौधा	विनायकपुर	विनायकपुर
61	मसौधा	नैपुरा	नैपुरा	44	मसौधा	नैपुरा	नैपुरा
62	मसौधा	नन्दीग्राम	नन्दीग्राम	45	मसौधा	नन्दीग्राम	नन्दीग्राम
63	मसौधा	पलिया गोवा	पलिया गोवा	46	मसौधा	पलिया गोवा	पलिया गोवा
64	मसौधा	दोस्तपुर	दोस्तपुर	47	मसौधा	दोस्तपुर	दोस्तपुर
65	मसौधा	बभनगवां	बभनगवां	48	मसौधा	बभनगवां	बभनगवां
66	मसौधा	मिर्जापुर निमौली	मिर्जापुर निमौली	49	मसौधा	मिर्जापुर निमौली	मिर्जापुर निमौली
67	मसौधा	बरवा	बरवा	50	मसौधा	बरवा	बरवा
68	मसौधा	अन्तपुर	अन्तपुर	51	मसौधा	अन्तपुर	अन्तपुर
69	मसौधा	कन्दैला	कन्दैला	52	मसौधा	कन्दैला	कन्दैला
70	मसौधा	महावां	महावां	53	मसौधा	महावां	महावां
71	मसौधा	रगघूपुर	रगघूपुर	54	मसौधा	रगघूपुर	रगघूपुर
72	मसौधा	सथरी	सथरी	55	मसौधा	सथरी	सथरी
73	मसौधा	साखूपारा	साखूपारा	56	मसौधा	साखूपारा	साखूपारा
74	मसौधा	मधुपुर	मधुपुर	57	मसौधा	मधुपुर	मधुपुर
75	मसौधा	रैथुवा	रैथुवा	58	मसौधा	रैथुवा	रैथुवा
			बीबीपुर				बीबीपुर
76	मसौधा	अबनपुर सरोहा	अबनपुर सरोहा	59	मसौधा	अबनपुर सरोहा	अबनपुर सरोहा
77	मसौधा	कल्याण भदरसा	कल्याण भदरसा	60	मसौधा	कल्याण भदरसा	कल्याण भदरसा

1	2	3	4	1	2	3	4
78	मसौधा	पलिया रिसाली	पलिया रिसाली	61	मसौधा	पलिया रिसाली	पलिया रिसाली
79	मसौधा	माधवपुर	माधवपुर	62	मसौधा	माधवपुर	माधवपुर
80	मसौधा	अरूवावां	अरूवावां	63	मसौधा	अरूवावां	अरूवावां
81	मसौधा	खानपुर मसौधा	खानपुर मसौधा	64	मसौधा	खानपुर मसौधा	खानपुर मसौधा
82	मसौधा	धर्मदासपुर	धर्मदासपुर	65	मसौधा	धर्मदासपुर	धर्मदासपुर
83	मसौधा	मैनुद्दीनपुर	मैनुद्दीनपुर	66	मसौधा	मैनुद्दीनपुर	मैनुद्दीनपुर
84	मसौधा	नजीवपुर	नजीवपुर	67	मसौधा	नजीवपुर	नजीवपुर
85	पूराबाजार	देवकाली	देवकाली कोरखाना	नगर विकास अनुभाग-7 संख्या 2055/नौ-7-19-22(जनरल) /2017टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम अयोध्या में सम्मिलित किया गया है।			
86	पूराबाजार	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर				
87	पूराबाजार	भीखापुर	भीखापुर नन्दापुर				
88	पूराबाजार	रानोपाली	रानोपाली				
89	पूराबाजार	मक्खापुर	मक्खापुर जियनपुर				
90	पूराबाजार	तकपुरा	तकपुरा				
91	पूराबाजार	हैबतपुर	हैबतपुर बाग बिजेश्वर काजीपुर चितावा				
92	पूराबाजार	आसिफबाग	आसिफबाग उपरहार आसिफबाग मांझा				
93	पूराबाजार	शाहनेवाजपुर	शाहनेवाजपुर उप0 शाहनेवाजपुर मांझा				
94	पूराबाजार	मांझा बरेहटा	मांझा बरेहटा				
95	पूराबाजार	सिरसिण्डा	सिरसिण्डा	68	पूराबाजार	सिरसिण्डा	सिरसिण्डा
96	पूराबाजार	पाराखान	पाराखान मोहतरिमनगर उप0 मोहतरिमनगर मांझा	69	पूराबाजार	पाराखान	पाराखान मोहतरिमनगर उप0 मोहतरिमनगर मांझा
97	पूराबाजार	तिहुरा	तिहुरा उपा0	70	पूराबाजार	तिहुरा	तिहुरा उपा0
98	पूराबाजार	तिहुरा मांझा	तिहुरा मांझा	71	पूराबाजार	तिहुरा मांझा	तिहुरा मांझा
99	पूराबाजार	सरेठी	सरेठी	72	पूराबाजार	सरेठी	सरेठी

1	2	3	4	1	2	3	4		
100	पूराबाजार	राजेपुर	राजेपुर उपा0	73	पूराबाजार	राजेपुर	राजेपुर उपा0		
			राजेपुर मांझा				राजेपुर मांझा		
101	पूराबाजार	सनेथू	सनेथू	74	पूराबाजार	सनेथू	सनेथू		
102	पूराबाजार	सरायरासी	सरायरासी उपा0	75	पूराबाजार	सरायरासी	सरायरासी उपा0		
			सरायरासी मांझा				सरायरासी मांझा		
103	पूराबाजार	मूडाडीहा	मूडाडीहा	76	पूराबाजार	मूडाडीहा	मूडाडीहा		
			मूडाडीहा मांझा बस्ती				मूडाडीहा मांझा बस्ती		
			पिपरी संग्राम				पिपरी संग्राम		
			पूरे चेतन				पूरे चेतन		
			सलेमपुर				सलेमपुर		
104	पूराबाजार	रामपुर हलवारा	रामपुर हलवारा उपा0	77	पूराबाजार	रामपुर हलवारा	रामपुर हलवारा उपा0		
			रामपुर हलवारा मांझा				रामपुर हलवारा मांझा		
105	पूराबाजार	जलालुद्दीन नगर	जलालुद्दीन नगर उपा0	78	पूराबाजार	जलालुद्दीन नगर	जलालुद्दीन नगर उपा0		
			जलालुद्दीन नगर मांझा				जलालुद्दीन नगर मांझा		
106	पूराबाजार	नारा	नारा	79	पूराबाजार	नारा	नारा		
107	पूराबाजार	भगवाभीट	भगवाभीट	80	पूराबाजार	भगवाभीट	भगवाभीट		
			कुतुबनगर				कुतुबनगर		
108	पूराबाजार	बैसिह	बैसिह	81	पूराबाजार	बैसिह	बैसिह		
109	पूराबाजार	रामदत्तपुर अटरावाँ	रामदत्तपुर अटरावाँ	82	पूराबाजार	रामदत्तपुर अटरावाँ	रामदत्तपुर अटरावाँ		
			किशुनदासपुर				किशुनदासपुर		
110	पूराबाजार	समाहाकला	समाहाकला	83	पूराबाजार	समाहाकला	समाहाकला		
111	पूराबाजार	समाहा खुर्द	समाहा खुर्द	84	पूराबाजार	समाहा खुर्द	समाहा खुर्द		
112	पूराबाजार	ददेरा	ददेरा	85	पूराबाजार	ददेरा	ददेरा		
113	पूराबाजार	कुशमहा	कुशमहा	नगर विकास अनुभाग-7 संख्या 2055/नौ-7-19-22(जनरल) /2017टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम अयोध्या में सम्मिलित किया गया है।	पूराबाजार	कुशमहा	कुशमहा		
114	पूराबाजार	सहिनवाँ	सहिनवाँ				सहिनवाँ		
			धर्मपुर सहादत				धर्मपुर सहादत		
115	पूराबाजार	आशापुर	आशापुर				पूराबाजार	आशापुर	आशापुर
116	पूराबाजार	कुढाकेशवपुर	कुढाकेशवपुर						कुढाकेशवपुर
			कुढाकेशवपुर मांझा	कुढाकेशवपुर मांझा					

1	2	3	4	1	2	3	4
117	पूराबाजार	मडना	मडना उपा0	86	पूराबाजार	मडना	मडना उपा0
			मडना मांझा				मडना मांझा
118	पूराबाजार	ताहिरपुर बरौली	ताहिरपुर बरौली	87	पूराबाजार	ताहिरपुर बरौली	ताहिरपुर बरौली
119	पूराबाजार	चरेरा	चरेरा	88	पूराबाजार	चरेरा	चरेरा
120	पूराबाजार	कादीपुर	कादीपुर	89	पूराबाजार	कादीपुर	कादीपुर
			कस्तूरीपुर				कस्तूरीपुर
121	पूराबाजार	देवगढ़	देवगढ़	90	पूराबाजार	देवगढ़	देवगढ़
122	पूराबाजार	रहीमपुर दुगवा	रहीमपुर दुगवा	91	पूराबाजार	रहीमपुर दुगवा	रहीमपुर दुगवा
123	पूराबाजार	समैसा	समैसा	92	पूराबाजार	समैसा	समैसा
124	पूराबाजार	दतौली	दतौली	93	पूराबाजार	दतौली	दतौली
125	पूराबाजार	रोशननगर	रोशननगर	94	पूराबाजार	रोशननगर	रोशननगर
126	पूराबाजार	खुशियालगंज	खुशियालगंज	95	पूराबाजार	खुशियालगंज	खुशियालगंज
			रूदौलिया				रूदौलिया
127	पूराबाजार	भदौली बुजुर्ग	भदौली बुजुर्ग	96	पूराबाजार	भदौली बुजुर्ग	भदौली बुजुर्ग
			भदौली खुर्द				भदौली खुर्द
			पलिया टेकघर				पलिया टेकघर
128	पूराबाजार	ऐमी आलापुर	ऐमी आलापुर	97	पूराबाजार	ऐमी आलापुर	ऐमी आलापुर
			करौदी				करौदी
129	पूराबाजार	द्वारिकापुर	द्वारिकापुर	98	पूराबाजार	द्वारिकापुर	द्वारिकापुर
			खजुरावर				खजुरावर
130	पूराबाजार	फतेहपुर मुमताजाबाद	फतेहपुर मुमताजाबाद	99	पूराबाजार	फतेहपुर मुमताजाबाद	फतेहपुर मुमताजाबाद
131	पूराबाजार	पिलखावा	पिलखावा	100	पूराबाजार	पिलखावा	पिलखावा
			ज्ञानापुर				ज्ञानापुर
132	पूराबाजार	रसूलाबाद	रसूलाबाद	101	पूराबाजार	रसूलाबाद	रसूलाबाद
			सुबदहा				सुबदहा
			आशापुर चन्दई				आशापुर चन्दई
133	पूराबाजार	रसड़ा	रसड़ा	102	पूराबाजार	रसड़ा	रसड़ा
134	पूराबाजार	हैसा	हैसा	103	पूराबाजार	हैसा	हैसा
			मोहरर्मपुर अरती				मोहरर्मपुर अरती
135	पूराबाजार	खानपुर	खानपुर	104	पूराबाजार	खानपुर	खानपुर
136	पूराबाजार	गंगौली	गंगौली	105	पूराबाजार	गंगौली	गंगौली
137	पूराबाजार	अंजना	अंजना	106	पूराबाजार	अंजना	अंजना

1	2	3	4	1	2	3	4
138	पूराबाजार	महेशपुर	महेशपुर	107	पूराबाजार	महेशपुर	महेशपुर
139	पूराबाजार	पुरखेपुर	पुरखेपुर	108	पूराबाजार	पुरखेपुर	पुरखेपुर
140	पूराबाजार	नरियावाँ	नरियावाँ	109	पूराबाजार	नरियावाँ	नरियावाँ
			मोदरा				मोदरा
141	पूराबाजार	दुर्गापुर	दुर्गापुर	110	पूराबाजार	दुर्गापुर	दुर्गापुर
142	पूराबाजार	कर्मा कोड़री	कर्मा कोड़री	111	पूराबाजार	कर्मा कोड़री	कर्मा कोड़री
143	पूराबाजार	कछौली	कछौली	112	पूराबाजार	कछौली	कछौली
144	पूराबाजार	शान्तीपुर	शान्तीपुर	113	पूराबाजार	शान्तीपुर	शान्तीपुर
145	पूराबाजार	सरायचैमल	सरायचैमल	114	पूराबाजार	सरायचैमल	सरायचैमल
			लक्ष्मीदासपुर				लक्ष्मीदासपुर
146	पूराबाजार	रामपुर सर्धा	रामपुर सर्धा	115	पूराबाजार	रामपुर सर्धा	रामपुर सर्धा
147	पूराबाजार	नरायनपुर	नरायनपुर	116	पूराबाजार	नरायनपुर	नरायनपुर
148	पूराबाजार	अलावलपुर	अलावलपुर	117	पूराबाजार	अलावलपुर	अलावलपुर
149	पूराबाजार	मित्रसेनपुर	मित्रसेनपुर	118	पूराबाजार	मित्रसेनपुर	मित्रसेनपुर
			बहोरनपुर				बहोरनपुर
150	पूराबाजार	सुखापुर	सुखापुर	119	पूराबाजार	सुखापुर	सुखापुर
		इटौरा	इटौरा			इटौरा	इटौरा
			बेनीपुर				बेनीपुर
		उधरनपुर	उधरनपुर			उधरनपुर	उधरनपुर
151	पूराबाजार	मोहतसिमपुर	मोहतसिमपुर	120	पूराबाजार	मोहतसिमपुर	मोहतसिमपुर
152	पूराबाजार	अकवारा	अकवारा	121	पूराबाजार	अकवारा	अकवारा

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/351/2015-4/112(अयोध्या)-2014, दिनांक 13 फरवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 403 राजपत्र-2019-(911) 599 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० पंचायतीराज-2020-(912) 132 प्रतियां (क०/टी०/आफसेट)।